



1--गाली-गलौज मारपीट कर, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने,छेडछाड करने के 02 वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना गलशहीद-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2022 को वादिनी निवासी थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ एक राय होकर मारपीट,गाली-गलौज कर,अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने , छेडछाड,मोबाईल लूट करने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 110/2022 धारा- 147/323/504/506/392/342/354(क)/354(ख) भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 03.09.2022 को उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना गलशहीद द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1. असद रईस पुत्र रईस अहमद 2. अनस रईस पुत्र रईस अहमद निवासीगण लाजपत नगर थाना कटघर,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।*

2-लूट की घटना कारित करने के प्रकाश में आये एक आरोपी को थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा लूटे गये रूपयों में से 11,670/- रूपये बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 24-08-2022 को वादी श्री प्रवेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वः श्री ब्रजवासी लाल गुप्ता निवासी नवीन नगर थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ने मोटर साइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का बैग जिसमे एक लाख पांच हजार दो सौ रूपये थे, को लुटकर ले जाने के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-694/2022 धारा- 392 भादवि किया गया।

घटना के शीघ्र अनावरण तथा लूट जैसी घटना कारित करने के आरोपीगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में थाना सिविल लाइन्स पर गठित टीम द्वारा दिनांक 02.09.2022 की रात्रि को लूट की घटना में प्रकाश में आये एक आरोपी योगेश पुत्र थानसिंह निवासी ग्राम झांझनपुर हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाइन्स,मुरादाबाद को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल होण्डा साईन न0- UP21CC3138 तथा लूटे गये रूपयों में से ग्यारह हजार छः सौ सत्तर (11670/-) रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-411 भादवि की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण:-

आरोपी योगेश उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने अपने दोस्त विवेक सागर पुत्र सुनील कुमार निवासी शिव सैनी मंदिर के पास हरथला,मुरादाबाद के साथ मिलकर दिनांक 24.08.2022 को उसकी मोटरसाइकिल UP 21CC 3188 होन्डा सीबी साइन से घटना को अंजाम दिया। हमें सेठ के रोजाना पैसे लेकर आने व बैंक में पैसे जमा करने के बारे में सारी जानकारी मेरे ताऊ के लड़के योगेन्द्र पुत्र स्व0 जसपाल सिंह निवासी झाँझनपुर हरथला थाना सिविल लाइन्स , मुरादाबाद ने दी थी। घटना के समय हमने मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट हटा दी थी। जिससे की हमारी पहचान न हो सके। प्रकाश में आये उपरोक्त दो अन्य आरोपीगण विवेक सागर पुत्र सुनील कुमार निवासी शिव सैनी मंदिर के पास हरथला 2. योगेन्द्र पुत्र स्व0 जसपाल सिंह निवासी झाँझनपुर हरथला थाना सिविल लाइन्स , जनपद मुरादाबाद की गिरफ्तारी हेतु थाना सिविल लाइन्स पुलिस प्रयासरत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त योगेश पुत्र थानसिंह निवासी ग्राम झांझनपुर हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद

बरामदगी:-

1. ग्यारह हजार छः सौ सत्तर (11,670/-) रूपये/-
2. 01 मोटर साईकिल **होण्डा साईन न0- UP21CC3138**

वांछित अभियुक्त –

1. विवेक सागर पुत्र सुनील कुमार निवासी शिव सैनी मंदिर के पास हरथला थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
2. योगेन्द्र पुत्र स्व0 जसपाल सिंह निवासी झाँझनपुर हरथला थाना सिविल लाईन्स , मुरादाबाद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. योगेश - मु0अ0सं0- 694/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

नोट:- बाकी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
2. नि0अ0 श्री रमेश चन्द थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
3. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
4. हे0का0 श्री रूपेश यादव थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
5. का0 मोहित कुमार थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
6. का0 रोहताश सिंह थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।